



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 10, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-22

### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	407-410	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	157-176	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	169-172	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-161/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री मुकेश कुमार राय को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल-13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मुकेश कुमार राय, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-162/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री हरीश कुमार सागर, को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान-₹78800-209200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरीश कुमार सागर, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 फरवरी, 2025 ई०

संख्या-163/XXXI(1)/2025/पदो-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राम सिंह, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-₹67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राम सिंह, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

आज्ञा से,  
दीपेन्द्र कुमार चौधरी,  
सचिव।

राजस्व अनुभाग-2अधिसूचना

21 मई, 2025 ई०

संख्या-1192/XVIII(II)/2025/(E.No.76458)-शासन के विनिमय स्वीकृति आदेश दिनांक: 13 जुलाई, 2023 के क्रम में न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या-79/2023-24, अन्तर्गत धारा-161 भू०रा०अधि० में पारित आदेश दिनांक: 07.02.2025 के द्वारा प्रथम पक्ष राज्य सरकार जरिये कलेक्टर, रुद्रप्रयाग की ग्राम भटवाड़ी की ज०वि०र० (नॉन जेड०ए०) खतौनी की श्रेणी-9(3)(ग) के खाता संख्या-09 के खसरा संख्या-881 रकबा 1.693 हे० मध्ये 0.023 हे० भूमि का द्वितीय पक्ष के पक्षकारों की ग्राम किमाणा में स्थित श्रेणी 1-क की भूमि खाता संख्या 25 के खसरा संख्या-118 रकबा 0.035 हे० मध्ये 0.008 हे०, खसरा संख्या-120 रकबा 0.019 हे० मध्ये 0.006 हे० एवं खसरा संख्या 120 रकबा 0.019 हे० मध्ये 0.009 हे० कुल रकबा 0.023 हे० भूमि से विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय-समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम भटवाड़ी की ज०वि०र० (नॉन जेड०ए०) खतौनी की श्रेणी-9(3)(ग) स्थायी पशुचर भूमि के खाता संख्या-09 के खसरा संख्या-881 रकबा 1.693 हे० मध्ये 0.023 हे० भूमि पर उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश-2001' का प्रसार किये जाने तथा ग्राम किमाणा की ख०खा०सं०-25, खसरा संख्या-118 रकबा

0.035 हे0 मध्ये 0.008 हे0, खसरा संख्या-120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.006 हे0 एवं खसरा संख्या 120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.009 हे0 कुल रकबा 0.023 हे0 भूमि पर न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या-79/2023-24, अन्तर्गत धारा-161 भू0रा0अधि0 में निर्गत विनिमय आदेश के पश्चात् 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण) आदेश-2001' के क्षेत्राधिकार से बाहर किये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,  
अपर सचिव।





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 10, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 27, 2025

No. 33/XIV-a-32/Admin.A/2016--Ms. Aishwarya Bora, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 04.07.2024 to 20.07.2024 with permission to suffix 21.07.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 27, 2025

No. 34/XIV-a-32/Admin.A/2016--Ms. Aishwarya Bora, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 16.08.2024 to 11.02.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*March 18, 2025*

No. 56/XIV-87/Admin.A/2003--Ms. Shadab Bano, Additional Director, UJALA, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 14.02.2025 to 28.02.2025.

NOTIFICATION*April 04, 2025*

No. 65/XIV-a/43Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 14 days w.e.f. 27.02.2025 to 12.03.2025 with permission to prefix 26.02.2025 as Maha Shivratri holiday & suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 as Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

*Registrar (Inspection).*

NOTIFICATION*April 04, 2025*

No. 66/XIV-a/43Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 28.11.2024 to 11.12.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

*Registrar (Inspection).*

NOTIFICATION*April 04, 2025*

No. 67/XIV-a-27/Admin.A/2016--Shri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 02.12.2024 to 22.12.2024.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

*Registrar (Inspection).*

NOTIFICATION*April 04, 2025*

No. 68/XIV-a/27/Admin.A/2012--Ms. Chhavi Bansal, Chief Judicial Magistrate, Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 38 days w.e.f. 03.02.2025 to 12.03.2025 with permission to prefix 02.02.2025 as Sunday holiday and suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 as Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

*Registrar (Inspection).*

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून

अधिसूचना

17 मई, 2025 ई0

संख्या-305/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-010/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 30.03.2025 एवं अमर उजाला में दिनांक 03.04.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्र0 सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	ग्राम एटनबाग परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून।	2691/1 एवं 2691/1/3	8852 वर्गमीटर	सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक	आवासीय

अधिसूचना

17 मई, 2025 ई0

संख्या-306/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-009/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 30.03.2025 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 03.04.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्र0 सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	ग्राम एटनबाग परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून।	2691/1/3	8671.86 वर्गमीटर	सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक	आवासीय (निर्धारित महायोजना मार्ग को छोड़कर)

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

28 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1578/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA1419 (Goods Carrier) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ700713 इंजन न0 697TC56MSZ157792 वाहन स्वामी श्री किशन सिंह पाल पुत्र श्री केशर सिंह पाल निवासी-ग्राम-चन्दनी पोस्ट-चन्दनी तहसील टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 26/12/2024 को वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.12.2024 को वाहन संख्या UK03CA1419 (Goods Carrier) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ700713 इंजन न0 697TC56MSZ157792 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1586/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03TA0794 (Maxi Cab) मॉडल 2001 चैचिस MA1WG2GHKE5F83589 इंजन न0 GHE4F68749 वाहन स्वामी श्री खीमा नन्द पुत्र श्री तारा दत्त निवासी-मकान संख्या 26 ग्राम-नीड़ खाईकोट मल्ला तहसील-लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तहसीलदार लोहाघाट की आख्यानुसार वाहन अतिवृष्टि के कारण सरयु नदी में बह गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2024 को वाहन संख्या UK03TA0794 (Maxi Cab) मॉडल 2001 चैचिस MA1WG2GHKE5F83589 इंजन न0 GHE4F68749 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1589/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03TA0478 (Motor Cab) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61S002009888 इंजन न0 F8DN4783645 वाहन स्वामी श्री पुष्कर लाल पुत्र श्री राम लाल निवासी-जूपपटवा, मुड़ियानी चम्पावत के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी की मृत्यु उपरान्त वाहन के कब्जे के उत्तराधिकारी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री पुष्कर लाल द्वारा दिनांक 26/12/2024 को वाहन पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का चेसिस का टुकड़ा संलग्न नहीं है वाहन के कब्जे वाले उत्तराधिकारी द्वारा चेसिस का टुकड़ा खोने के सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2024 को वाहन संख्या UK03TA0478 (Motor Cab) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61S002009888 इंजन न0 F8DN4783645 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1590/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA 2273 (Goods Carrier) मॉडल 2024 चैचिस MAT464827RSF04772 इंजन न0 VARICOR12FVXJ08349 वाहन श्री रतन सिंह बोहरा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह बोहरा निवासी-मटियानी जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 27/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन अतिवृष्टि में बहने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2024 को वाहन संख्या UK03CA 2273 (Goods Carrier) मॉडल 2024 चैचिस MAT464827RSF04772 इंजन न0 VARICOR12FVXJ08349 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
टनकपुर (चम्पावत)।

**कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
टनकपुर (चम्पावत)**

**कार्यालयादेश**

28 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक-1576/निलम्बन/2024-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह दिसम्बर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री सुनील कुमार मिश्रा पुत्र श्री किशन दत्त मिश्रा, अवस्थी तोला, महासुनिया गंज महौली मिसरिख, सीतापुर, उ.प्र.।	UP-3420040060521	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 28.12.2024 से दिनांक 27.03.2025 तक
2	श्री नरेन्द्र किशन पुत्र श्री एस.के. शारदा, लाल ईमली पड़ाव, वार्ड नं. 07, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320080001214	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री योगेश पंत पुत्र श्री गोवर्धन पंत, आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320210000091	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री धनी राम पुत्र श्री कालु राम, म.न. 222, मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320230007946	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री अमन सिंह राजपुत पुत्र श्री गोविन्द सिंह राजपुत, न.न. 131, गायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320170035079	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्रीमती सुनिता कुँवर पत्नी श्री योगेश सिंह कुँवर, चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320200002724	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री बसन्त कुमार देऊपा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह बोहरा, देऊपा फार्म, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320010009631	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री संजय कश्यप पुत्र श्री पूतु लाल, लाल ईमली पड़ाव, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320140020911	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री रोहित जोशी पुत्र श्री शंकर दत्त जोशी, ग्राम मोहनपुर, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320170035905	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री सुलेमान पुत्र श्री मकबुल हुसैन, ग्राम भजनपुर, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320090009151	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री प्रमोद चन्द्र जोशी पुत्र श्री रिखी दत्त जोशी, म.न. 30, ग्राम एवं पोस्ट तामली, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320170034370	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
12	श्री मनोहर सिंह खोलिया पुत्र श्री शेर सिंह खोलिया, पहेनिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320120012856	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

13.	श्री रोशन भट्ट पुत्र श्री गंगा प्रसाद भट्ट, कुटरी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320240004757	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री धर बहादूर, म.न. 16 चौड़ाकोट, तहसील पुर्णागिरी, पोस्ट सुखीड़ाग, जनपद चम्पावत।	UK-0320230004075	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
15.	श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री संतोष गुप्ता, 52 क, पचपकरिया, पोस्ट चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320120012416	प्रवर्तन दल टनकपुर	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 28.12.2024 से दिनांक 27.01.2025 तक
16.	श्री राशिद हुसैन पुत्र श्री सबीर हुसैन, फील खाना, कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620100009000	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 29.12.2024 से दिनांक 27.03.2025 तक
17.	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, जी. आई.सी. वार्ड डीडिहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520220002374	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्रीमती आशा बिष्ट पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, गाँव मनिहारगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320220003064	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री त्रिलोक चन्द्र पुत्र श्री धर्मानन्द, ग्राम पचौरिया, तहसील खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320070002419	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री मनोज खर्कवाल पुत्र श्री भुवन चन्द्र खर्कवाल, भिगराड़ा भण्डारी, धामीसौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320230005930	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप पुत्र श्री नाथू लाल, ग्राम भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320130013793	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

## कार्यालयादेश

15 जनवरी, 2025 ई०

पत्रांक-061/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	सुनिता चन्द पुत्री श्री जगदीश चन्द, म.न. 67, ग्राम देवीपुरा, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320230001080	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 15.01.2025 से दिनांक 14.04.2025 तक
2	श्री राजेन्द्र सिंह पोखरिया पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह पोखरिया, दियोरी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620190009310	प्रवर्तन दल टनकपुर	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम एवं पोस्ट चकरपुर बिल्हरी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320150027614	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार



4	श्री बब्लू पुत्र श्री सियाराम, मीना बाजार, बनबसा, चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240000569	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री जीवन कुमार आर्या पुत्र श्री गोपाल राम आर्या, बिचई, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320240003949	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री पवन सिंह महर पुत्र श्री अर्जुन सिंह महर, उचौलीगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320230002238	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री हरीश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री जय दत्त भट्ट, 62 बस्टे, सिलथाम, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0419860053200	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री विजय राज देऊपा पुत्र श्री गजराज सिंह देऊपा, रिखेश्वर वार्ड, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320140020277	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री हरिवरन भण्डारी पुत्र श्री राम सिंह, गैथाना, जाजरदेव, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160026451	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री राहुल गंगवार पुत्र श्री विनोद कुमार गंगवार, टाईप 03, ई 1, एस.टी.एम., सिविल लाइन्स हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-042010 0026150	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री परमानन्द, सिराङ, तोतानौला, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520110004089	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
12	श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री आर. आर. विश्वकर्मा, तिलक नगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620030013119	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13	श्री अभिनव खर्कवाल पुत्र श्री लक्ष्मी खर्कवाल, पोलिड हाऊस, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320230004655	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14	श्री विजय सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह विष्ट, गड़कोट, सैन्दक चम्पावत।	UK-0320170035385	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
15	श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री हयात सिंह सामन्त चौड़ा, राजपुरा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320220004651	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना	दिनांक 15.01. 2025 से दिनांक 14.07.2025 तक
16	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह, बुडाली, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520140018013	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	दिनांक 15.01. 2025 से दिनांक 14.04.2025 तक
17	श्री चंचल सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, कांडा, दुधपोखरा चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320170039249	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
18	श्री सुरेश चन्द्र पंगरिया पुत्र श्री हरि दत्त, झूलाघाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520180039568	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
19	श्री कासिम खान पुत्र लईकजामा खान, खुदागंज, जनपद पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620040041257	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
20	श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री चन्द्री चन्द, भूडमहोलिया, खटीमा, जनपद	UK-0420010010996	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार



21.	श्री रितिक कुमार पुत्र श्री झल्ले सिंह, हुसैनपुर, इमलिया, चांदपुर, बिजनौर, उ.प्र.।	UP2020230009289	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
22	श्री दीवान गिरी पुत्र श्री राजेन्द्र गिरी, बाराकोट, जाखपुराण, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520220000945	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
23	श्री प्रकाश राम पुत्र श्री कालु राम, विवार, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0420040076201	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
24	श्री आदित्य सिंह पुत्र श्री संत सरन, सिजौली, हरिकृष्णपुर, बसन्तखेड़ा, फतेहपुर, उ.प्र.	UP-7120190000449	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25	श्री नवीन चन्द्र मठपाल पुत्र श्री भुवन चन्द्र मठपाल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UA04/11109/HLD/09	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
26	श्री पंकज कुमार पंत पुत्र श्री चन्द्रशेखर पंत, नैना देवी, वार्ड नं. 08, मल्लीताल, नैनीताल।	UK-0420090021983	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
27	श्री पंकज कुमार टम्टा पुत्र श्री बलवन्त राम, RZ-98, थर्ड फ्लोर, खुशीराम पार्क, हनुमान मन्दिर, उत्तम नगर, दिल्ली।	DL-120230000402	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28	श्री मनोज सिंह पुत्र श्री किशन सिंह,मानाडुंगा, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320230003260	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री शिव कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, म.न. 14, खन्डासा, गुड़गाँव, हरियाणा।	HR-2620120133102	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गणेश दत्त, बीसा बजेड, पिथौरागढ़।	UK-0420010085865	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री आन सिंह पुत्र श्री नारायण खटौली तल्ली, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006303	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
32.	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बी.एस. खड़ायत, कुमौड़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520060031813	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
33.	श्री राकेश चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, ए. डी.एम ब्रान्च, एच.क्यू एरिया, बरेली, उ.प्र.	UP-2520140007151	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
34.	मो. आसिम पुत्र मो. फारूख, वार्ड 14, इन्द्रानगर, नियर निशाद स्कूल, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-0420170186370	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री तारा दत्त पुत्र श्री हरीश चन्द्र, गोस्वामी खेतीखान, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UA03/1661/TNK/2006	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
36	श्री पंकज कुमार पुत्र बिशन राम, हथरगिया वार्ड, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320170035002	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

कार्यालयादेश

29 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक-0122/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संसिलित वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री कूलदीप कुमार पुत्र श्री सुखदेव सिंह, ग्राम चारुबेटा, पोस्ट एवं तहसील खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160029019	सहा.सम्भा.परि. अधि.(प्रवर्तन), बागपत, उ.प्र.	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 29.01.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक
2	श्री राजेन्द्र भट्ट पुत्र श्री शिव दत्त भट्ट, कलानीछीना पिथौरागढ़।	UK-0420020104308	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री हिमांशु कन्याल पुत्र भुपाल सिंह, बानसूरी, पोस्ट झनकट, खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320150027712	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री दीपक सिंह पुत्र श्री जोध सिंह, शिव एन्वलेव, इस्लामपुर फरीदाबाद, हरियाणा।	HR-5120210033446	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री शिव नाथ, म.न. 117/238, ब्लाक हितकारी नगर, काकादेव, कानपुर, उ.प्र.	UP-7820110025816	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री दीपक मेहता पुत्र श्री दान सिंह मेहता, म.न. 113, बडेलागुथ, पिथौरागढ़।	UK-0520100000057	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री सुमित कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, बोंसखेड़ा काला, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-1820180000559	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री गौरव मिश्रा पुत्र श्री राम प्रकाश, बुद्धवाना, जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उ.प्र।	UP-2720090039022	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री संजय वर्मा पुत्र श्री सुखेन्द्र पाल, नगला, रामनगर, जगतपुर, बिलासपुर, पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620200004414	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री सचिन त्रिपाठी पुत्र श्री गिरीश चन्द्र, मत्तूरा, पिथौरागढ़।	UK-0520140018632	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री किशन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, सेरीकन्द गुरना, पिथौरागढ़।	UK-0420000095718	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
12	श्री गगनदीप चन्देल पुत्र श्री धमेन्द्र कुमार सिंह, गली नं. 01 फेज 01, ब्लाक जय विहार, नजफगढ़, साऊथ वेस्ट दिल्ली।	DL-9202000007087	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13	श्री ऋषभ भट्ट पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, नगरोड़ा, पिथौरागढ़।	UK-0320230004797	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
14	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, लेख, पाटी, चम्पावत।	UK-0320100003571	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

15.	श्री भीम सिंह पुत्र श्री राय सिंह रावत, उद्री, उत्तरकाशी।	UK-1020180018994	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री अमित सिंह रावत पुत्र श्री रमेश सिंह, डोरगा, चम्पावत।	UK-0320220000012	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री अमित भट्ट पुत्र श्री जीवन चन्द भट्ट, बालाताड़ी, पाटी चम्पावत।	UK-0320210002703	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री केदार दत्त, मन. 28, तुनकान्डा पुल्ला, लोहाघाट, चम्पावत।	UK-0320030029623	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री उमेश लाल, नियर ब्लाक ऑफिस, लोहरियासाल, कठघरिया, हल्द्वानी, नैनीताल।	UK-0420210000382	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री रमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री आनन्द बल्लभ जोशी, सुयालखर्क, पो. धामीसौन, चम्पावत।	UK-0320130017499	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र राम, नारायण नगर, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	UK-0520120008686	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22.	श्री गोविन्द बल्लभ भट्ट पुत्र श्री चेत राम भट्ट, म.न. 24, ग्राम एवं पोस्ट रौसाल, चम्पावत।	UK-0320040023553	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बहादूर राम, कान्तोली, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520120006364	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
24.	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, बुडली, नकोट, पिथौरागढ़।	UK-0520190043926	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, सिनतोली, नकोट, पिथौरागढ़।	UK-0420060037676	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 29.01.2025 से दिनांक 28.07.2025 तक
26.	श्री हिमांशु यादव पुत्र श्री प्रदीप यादव, एन. एस.जी. कैम्पस, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा।	HR-2620200020182	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 29.01.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक
27.	श्री त्रिलोचन जोशी पुत्र श्री नित्यानन्द जोशी, किसकोट, मुडियानी, चम्पावत।	UK-0320180003447	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री शैलेश पुडिर पुत्र श्री यू.के. पुडिर, सोसाइटी एरिया, सीमेन्ट टाउन, देहरादून।	UA-0720070007617	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री सुधीर पाण्डेय पुत्र दयाकृष्ण पाण्डेय, नियर वन चौकी, अचौली, पिथौरागढ़।	UK-0520100000111	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री कन्हैया बाल्मिकी पुत्र श्री बृजपाल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम धिघारीखाल, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।	UK-0120140022895	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री विपिन टम्टा पुत्र श्री गणेश राम टम्टा, म.न.18, पान्डा, धनौरा, पिथौरागढ़।	UK-0520170029978	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

32.	श्री त्रिलोक सिंह पवार पुत्र श्री कुँवर, ग्राम कोटा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	UK-0520130013467	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
33.	श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री मनोहर वर्मा, धूरा, फरतोला, बाराकोट, चम्पावत।	UK-0320090000116	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
34.	श्री आर.पी. जोशी पुत्र श्री एच.बी. जोशी, नियर सेवा केन्द्र, आदमपुर, जालन्धर, पंजाब	PB-0820080028329	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री सोरभ सौन पुत्र श्री हिम्मत सिंह, 117, मनकतिया, पिथौरागढ़।	UK-0520210000635	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
36.	श्री जगदीश कालौनी पुत्र श्री खीलानन्द, एम-64, हरिलोक कालौनी, ज्वालापुर, हरिद्वार।	UK-0820150155732	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
37.	श्री सौबिक नन्दे पुत्र श्री स्वपन कुमार, मिलिट्री हॉस्पिटल, पानगढ़, पश्चिमी वर्धमान, बेस्ट बंगाल।	WB-3920180173582	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्री अर्जुन भण्डारी पुत्र श्री महिपाल सिंह, रूतु की बेली, धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल।	UK-1220200002533	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री कमल सिंह मेहर पुत्र श्री भवान सिंह महर, गौरलचौड़, जनपद चम्पावत।	UK-0320170037989	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
40.	श्री दीक्षित कुमार पुत्र श्री सैलेश मोहन, लमकनिया, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006170	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री हिमाशु जोशी पुत्र श्री खुशाल सिंह, गोली, बिरगुल, जनपद चम्पावत।	UK-0320240006980	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
42.	श्री हिमाशु जोशी पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, सैन्द्रक ओखलडुंगा, जनपद चम्पावत।	UK-0320220002048	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
43.	श्री पंकज सिंह मेहरा पुत्र श्री श्याम सिंह, सेन्द्रक, जनपद चम्पावत।	UK-0320240005874	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
44.	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शंकर राम, चौकुनी बोरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320190001689	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
45.	श्री टीका राम पुत्र श्री कृष्णानन्द, जयगाँव, जैतोली, जनपद चम्पावत।	UK-0320160029778	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
46.	श्री दीक्षित पाण्डे पुत्र श्री ललित मोहनपाण्डे, सिमल्टा, जनपद चम्पावत।	UK-0320220004023	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
47.	श्री व्योम पाण्डे पुत्र श्री देवेश कुमार, राजीव नगर, भूड़ महौलिया, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320240005522	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
48.	श्री बिपिन चन्द्र पुत्र श्री लाल किशोर जोशी, आर्दश कालौनी, भूड़ महौलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160033541	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

49.	श्री विजय सिंह पुत्र श्री चतुर सिंह, सुजान गाँव, पोस्ट खेतीखान, जनपद चम्पावत।	UA04/803/HLD/2006 (मैनुअल)	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
50.	श्री लाल सिंह गब्याल पुत्र डी.एस. गब्याल, जी-39 एफ एफ, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, ईस्ट दिल्ली।	DL-0520110144144	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
51.	श्री किशन दत्त तिवारी पुत्र श्री नरपति दत्त तिवारी, जरी मारी माता मन्दिर वर्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र।	MH-0120100086745	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 29.01.2025 से दिनांक 28.07.2025 तक
52.	श्री विधुश कुमार पुत्र श्री विकास, ग्राम कंजा पोस्ट माला, गजरौला, पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620140004921	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 29.01.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक
53.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रहलाद राम, खर्ककार्की, चम्पावत।	UK-0320110007565	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
54.	श्री नवीन चन्द्र प्रसाद पुत्र श्री कैलाश चन्द्र, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320120010335	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
55.	श्री दिनेश चन्द्र मेहता पुत्र श्री गोविन्द, ल्वेटा, पोस्ट भैसियाछाना, अल्मोड़ा।	UK-0120220001418	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
56.	श्री पंकज सिंह नेगी पुत्र श्री अरुण सिंह नेगी, ग्राम चौचरी, चम्पावत।	UK-0320210004302	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
57.	श्री राजेन्द्र लाल पुत्र श्री रुकम लाल, दुग्नु, धारचुला, पिथौरागढ़।	UK-0520000002880	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

31 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक-0144/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा दत्त, धूरा, सुखीढाग, जनपद चम्पावत।	UK-0320130014657	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 31.01.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक
2	श्री दान बहादूर चन्द पुत्र श्री हरि चन्द, ग्राम भजनपुर, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320120008571	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री राम किशोर गुप्ता पुत्र श्री दरवारी लाल गुप्ता, नेहरु बाजार, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320160033692	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार



4	श्री हरीश भट्ट पुत्र श्री गंगा सिंह, छतकोट, स्वाला, अमोड़ी, जनपद चम्पावत।	UK-0320120012344	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री मोती राम पुत्र श्री तिलक राम, ग्राम नायकखेड़ा, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320200000969	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री धीरज चन्द पुत्र श्री प्रेम चन्द, ग्राम भजनपुर, बमनपुर, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320130017404	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री शत्रुघ्न पुत्र श्री केशव, हथरगिया वार्ड, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320150023577	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री फैजान अन्सारी पुत्र श्री परवेज आलम, बनबसा, तहसील पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320210002691	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, मीना बाजार, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0419920015352	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10	मेधा पुत्री श्री ललित मोहन भट्ट, फागपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320200001689	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री पुरन चन्द्र पुत्र श्री केशव चन्द्र, ग्राम बिचई, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320050016427	प्रवर्तन दल टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

15 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक-0184/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह फरवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेंस धारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	नेहा जोशी पुत्री श्री बाला दत्त जोशी, पोस्ट एवं तहसील खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160032704	Traffic Cell Anjuna, Goa	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	दिनांक 15.02.2025 से दिनांक 14.05.2025 तक
2	श्री सलीम पुत्र श्री साबिर खान, रेलवे वार्ड-10, रेलवे कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320140022185	ए.आर.टी.ओ. शाहजहाँपुर, उ.प्र.7	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री ललित नेगी पुत्र श्री जीत सिंह नेगी, वार्ड नं. 06, सी डब्ल्यू सी कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320190001507	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री अरुण धानुक पुत्र श्री राजकुमार, कपूर फर्नीचर वार्ड नं.- 07, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320170037734	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री शानू खान पुत्र श्री तुफेल खान, इस्लामनगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160031653	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री जितेन्द्रराय पुत्र श्री मुन्शीराय, HQ 371 Comp ARTY BDE care of 56 APO अम्बाला कैंट, हरियाणा।	HR-8520170003898	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
7	श्री आशीष सिंह पुत्र श्री बच्ची सिंह, कनलगौव, पो. एवं तह. चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320160033669	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

8.	श्री किशोर सिंह पुत्र श्री छत्तर सिंह, चौकुनी बोरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320110007392	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9.	श्री जनक कुमार पुत्र श्री मोहन राम, पचौरिया, चकरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320230003147	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
10.	श्री अनन्त भसीन पुत्र श्री राजीव भसीन, घण्टाकरन, पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520210001863	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11.	श्री हयात सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, काकरी, गुरेली मंडलक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320130025659	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
12.	श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री दिले राम जोशी, बाजरीकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320220002460	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री विजय सिंह पुत्र श्री गिरीश सिंह विष्ट, सैन्दुल बोरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320170036440	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री राहुल सिंह महर पुत्र श्री गणेश सिंह, ग्राम नेत्र सालन, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320240004969	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री हिमांशु विष्ट पुत्र श्री राजेश सिंह विष्ट, बाराकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320220000403	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 15.02.2025 से दिनांक 14.03.2025 तक
16.	श्री पूरन कुमार पुत्र श्री किशन राम, ग्राम तल्ला बापरु, लोहाघाट जनपद चम्पावत।	UK-0320240003436	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री प्रहलाद राम पुत्र चिन्ता राम, गल्ला गाँव, तड़ाग, लोहाघाट जनपद चम्पावत।	UK-0320190000878	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री विकास कुमार टम्टा पुत्र श्री शान्ति प्रसाद, आवास विकास वार्ड नं. 03, कृष्ण नगर, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620090009809	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	दिनांक 15.02.2025 से दिनांक 14.05.2025 तक
19.	श्री महिपाल सिंह भण्डारी पुत्र श्री त्रिलोक सिंह भण्डारी, कुजौली गाँव, पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160026425	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री लोक चन्द्र पुत्र श्री जंगी चन्द्र, खर्ककार्की, जनपद चम्पावत।	UK-0320200001672	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री अनिरुद्ध, रनकोट उप्रेती, गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520210001900	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री बी.बी. पाण्डे, नियर उत्तराखण्ड आटा मील टकना रोड, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0419930109110	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, खतौली, मुनस्थारी, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160027028	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
24.	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री विनोद प्रसाद, 61 न्यू बजेटी डिग्री कालेज, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520230001854	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री राजकुमार पुत्र श्री गौतम सिंह, ग्राम कलेनापुर, पोस्ट रासधन, डेरापुर सिकन्दरा, कानपुर, उ.प्र.।	UP-7720210300491	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
26.	श्री मनोज चन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र चन्द्र, बीसा बजेड़, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520190043929	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
27.	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री विकास कुमार, धर्मशाला लाइन, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520220003750	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

28.	श्री प्रशान्त सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520180038420	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री नवीन पुत्र श्री गोपाल राम, कोलीढेक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	DL-0420000163859	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री नरोत्तम पुत्र श्री कृष्ण, मनहारगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320190001187	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री भीम प्रकाश पुत्र श्री जगत राम, खेमपुर मिलक, रामपुर, उ.प्र.	UP-2220230001454	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
32.	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री स्वर्णजीत, नगला बॉस, नागली, रामपुर, उ.प्र.।	UP-2220200000299	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
33.	श्री भुपेन्द्र पुत्र श्री शिवराम सिंह, चन्दनी, बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002582	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
34.	श्री अजय पाठक पुत्र श्री पूरन चन्द्र पाठक, दमुवाढूंगा, काठगोदाम वार्ड-06, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-0420110057589	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री मोहम्मद तारीक पुत्र श्री रफी, ड्यूटीबगड़, जौलजीबी, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520210000699	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
36.	श्री मोहन सिंह बृजपाल पुत्र श्री खुशाल सिंह, बृजपाल निवासी बी- 23, नेहरू विहार, तिमारपुर, दिल्ली।	DL-0120080015810	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
37.	श्री उमेश्वर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, काकर बिसारदी, रेपू, पो. बाराकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320160028566	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री प्रमोद सिंह, मंच, तामली, जनपद चम्पावत।	UK-0320240007860	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री अभिषेक भट्ट पुत्र श्री मदन मोहन भट्ट, धारचूला रोड, सिलथाम, तह. पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520130011195	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
40.	श्री संदीप भण्डारी पुत्र श्री श्याम सिंह, डीडिहाट, खातरी बजात, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520200001002	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री दिव्यांशु पंगरिया पुत्र श्री कृष्णानन्द पंगरिया, 45 INF BDE SIG Coy C/O 56 APO Morar, ग्वालियर, जनपद मध्य प्रदेश।	MP-0720221012586	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
42.	श्री हरीश पुत्र खचेटू, जैदपुर, घोसी, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620110032597	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
43.	श्री राकेश पुत्र श्री राजकुमार, वार्ड नं. 05, न्यू बस्ती, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002310	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
44.	श्री सोनू चौहान पुत्र श्री राम बक्श चौहान, टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK-0320100003156	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
45.	श्री सागर विश्वकर्मा पुत्र श्री भीम राम, आमबाग, टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK-0320180002744	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
46.	श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, विष्णुपुरी कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320210002862	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
47.	श्री रामकुमार पुत्र श्री द्रोपत लाल, मनहारगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320090004745	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का खतरनाक संचालन करना।	उपरोक्तानुसार



48.	श्री मुकुल सक्सेना पुत्र श्री विनोद कुमार, के ब्लाक, नगला पन्तनगर, हल्द्वानी रोड जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620070094293	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
49.	श्री अबीर साह पुत्र श्री सबीर साह, चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320190001930	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
50.	श्री प्रदीप भट्ट पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ भट्ट, धर्मशाला लाइन पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520200001090	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
51.	जगदीश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री हरीदत्त भट्ट, महाराणा प्रताप गेट, चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002560	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
52.	श्री कमल चन्द्र पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र, बस्वाड़ी, जनपद चम्पावत।	UK-0620210008937	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

24 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक-0227/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह फरवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री आमिल काद्री पुत्र श्री नईम काद्री, सिनेमा लाइन पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520220001131	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 24.02.2025 से दिनांक 23.05.2025 तक
2	श्री निखिल कुमार पुत्र श्री मनोहर राम, न्यू बस्ती फागपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320210003365	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.02.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक
3	श्री पंकज फर्त्याल पुत्र श्री दीवान सिंह फर्त्याल, चौमेल, बवनपुरी, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320230002187	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.02.2025 से दिनांक 23.05.2025 तक
4	श्री अभिषेक सिंह यादव पुत्र श्री वी.एस. यादव, ग्राम ज्ञानखेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320070015720	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, कनार गोगई बरम, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520220002337	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री पवन सिंह पुत्र श्री देव सिंह, मल्लादेक, कर्णकरायत, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320140020639	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विक्रम राम, चौड़ा राजपुरा, खूनाबोरा, चौड़ा डुमखुरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240007189	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री ललित सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, नगला तराई, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160028662	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री पंकज पुत्र श्री राजेन्द्र राम, चेरड़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520210005273	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, C/O 56APO, बीकानेर, राजस्थान।	RJ-0720140006328	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

11.	श्री प्रियेश अवस्थी पुत्र श्री कमलेश अवस्थी, पंत गाँव, मझेड़ा, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520200002274	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
12.	श्री प्रदीप पुत्र श्री मुरारी लाल, शाकरस, पोस्ट बहेड़ी, जनपद बरेली, उ.प्र.	UP-2520220026156	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री भीम दत्त, स्वाला, जनपद चम्पावत।	UK-0320220004525	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री सचिन पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, कुआं डांडा, काशीमपुर, जनपद बदायूँ, उ.प्र.।	UP-2420120004076	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री प्रेम प्रकाश कांडपाल पुत्र श्री उर्वादत्त कांडपाल, भूड महोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320180000360	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री कार्तिक गडकोटी पुत्र श्री नलदेव गडकोटी, आर्दश कालोनी, भूड महोलिया, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320180000931	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री भुवनेश सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र बहादूर सिंह, 9/13 आवास विकास-03, सेक्टर-09 अम्बेडकर पुरम, कल्याणपुर कानपुर, उ.प्र.	UP-7820090017316	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री धीरज उपाध्याय पुत्र श्री कस्तुबानन्द पुत्र उपाध्याय, गड़ीकोट, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320250000625	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री रईस मियाँ पुत्र श्री हमिदउल्ला, मनिहारगोड, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320090000034	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री संजय सिंह सामन्त पुत्र श्री पुष्कर सिंह सौन, मडलक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0520210004892	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना एवं मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
21.	मो. रुरतम पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, ग्राम मझौला, दिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320140020098	ए.आर.टी.ओ. बिजनौर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

03 मई, 2025 ई0

पत्रांक-0567/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह मई, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री विशाल कुमार पुत्र श्री हरीश कुमार, तिलक नगर, वार्ड-04, खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320170035130	क्षेत्राधिकारी खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 03.05.2025 से दिनांक 02.08.2025 तक
2.	श्री राकेश नेगी पुत्र श्री विशन सिंह, कुण्डेश्वरी, पुलिस चौकी, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-1820190000345	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री विपिन चन्द्र पुत्र श्री महेश चन्द्र, कलचौड़ा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320230003169	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

4	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, साकीटोला वार्ड लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320230005175	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम दत्त, पलनु, कोटला, मोलार, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।	HP-1820190001621	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री कुलदीप अधिकारी पुत्र श्री किशन सिंह अधिकारी, टकाना, विकास भवन, गुरुकृपा भवन, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520210004435	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, हल्द्वी, बजुनिया, पटलिया, कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।	UK-0420170178011	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री हर्ष शुक्ला पुत्र श्री प्रकाश शुक्ला, एम-1/18, सेक्टर- बी, अलीगंज, लखनऊ, उ.प्र.	UP-32A20120003371	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजपाल, ईमामपुर, मिशरिख, सीतापुर, उ.प्र.	UP-3420200007691	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री राकेश सती पुत्र ख्याली दत्त सती, ए-स्टेट बैंक, प्रीतमपुरा, रानीवाग, दिल्ली।	DL-0820090008030	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री अनुराग जोशी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ, पमदा, बाराकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320180000612	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
12	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री आत्मा सिंह, भगवन्त नगर, रामपुर, उ.प्र.	UP-2220220019408	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
13	श्री प्रमजोत सिंह पुत्र श्री हरजीत सिंह, रघुलिया, पोस्ट मझौला, अटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320240006748	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14	श्री पदम सिंह राणा पुत्र श्री करम सिंह राणा, तितरोन, रदौर, सहारनपुर, उ.प्र.।	UP-1120040004152	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
15	श्री साजिद पुत्र श्री साबिर अहमद, वार्ड नं. 03, वर्मा लाईन, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320180002489	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति एवं खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
16	श्री अफसर पुत्र श्री इस्तियाक अहमद, वार्ड नं. 03, उमरखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320170039312	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17	श्री जावेद अली पुत्र श्री अख्तर, चिरियाथेर, कुन्डारकी, बिलारी, मुरादाबाद, उ.प्र.	UP-2120230017517	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
18	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह, भनौली, पुंगला, अमौड़ी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240004332	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
19	श्री अजय सिंह भण्डारी पुत्र श्री मनोहर सिंह, बजरीकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320220005137	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
20	श्री चरन पुत्र भुवन चन्द्र लधौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320130017353	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21	श्री अनुज पंत पुत्र श्री नरेश पंत, नक्तादाना कालौनी, पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620140004760	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री शंकर दत्त, ग्राम एवं पोस्ट मोरारी, जनपद चम्पावत।	UK-0320150023924	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
23	श्री विनय कुमार पुत्र श्री रामी राम, खर्ककार्की, जनपद चम्पावत।	UK-0320220000615	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

24.	श्री गोविन्द भट्ट पुत्र श्री अमर नाथ भट्ट, खेल केदिया, जनपद चम्पावत।	UK-0320250000146	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री युगल किशोर पुत्र श्री गोविन्द राम, बडपास, कालूखान गूठगरसारी, जिला चम्पावत।	UK-0320160032883	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
26.	श्री रवि सिंह बोहरा पुत्र श्री शेर सिंह बोहरा, चैकुनीबोरा, दुधपोखरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320250001707	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
27.	श्री किशोर कुमार सिंह पुत्र गिरिधर सिंह, बनार, माजरीकांडा, पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160025898	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री इन्द्र सिंह भदौलिया पुत्र श्री टी. एस. भदौलिया, कैथी, सावल्ला जनपद पिथौरागढ़।	UK-0419920079274	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

सुरेन्द्र कुमार,  
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,  
टनकपुर चम्पावत।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 10, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## सूचना

I A-174828 Shyam Singh S/o Shree Seva Ram Saini R/o Gali No-9, Krishna Nagar Roorkee, Uttarakhand have changed my name from SHYAM SINGH to SHYAM SINGH SAINI for all future purpose

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHYAM SINGH SAINI  
S/o Shree Seva Ram Saini R/o  
Gali No-9, Krishna Nagar Roorkee.  
Uttarakhand

## सूचना

मेरे पुत्र ROVIN NAUTIYAL के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम PHOOLO DEVI दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड नं0 871211717364 में त्रुटिवश मेरा नाम FULO DEVI गलत दर्ज हो गया है। भविष्य में मुझे PHOOLO DEVI W/o BUTA RAM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

PHOOLO DEVI W/o BUTA RAM  
निवासी—ग्राम-खमुण्डी मल्ली, पो0ओ0  
सारीगाड़, बड़कोट, जिला—उत्तरकाशी

सूचना

मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाणपत्र में नाम पीहू यादव दर्ज है। जबकि मैंने मेरी पुत्री का नाम पीहू यादव से बदलकर अंशिता यादव रख लिया है। भविष्य में उसे अंशिता यादव पुत्री राजकुमार यादव निवासी 71 राजपुर रोड देहरादून के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजकुमार यादव  
निवासी 71 राजपुर रोड देहरादून

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 897798321438 में त्रुटिवश मेरा नाम सुन्दर देवी (SUNDARDEVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम संगीता रानी (SANGEETA RANI) है। भविष्य में मुझे संगीता रानी (SANGEETA RANI) पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संगीता रानी (SANGEETA RANI)  
पत्नी श्री विनोद कुमार  
निवासी बाक्करपुर पोस्ट खानपुर ब्रह्मपुर  
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी PRLIPOLICY NO.R-UA-DN-EA-115171 में मेरा नाम BALISTER SINGH दर्ज है। मैंने अपना नाम BALISTER SINGH से बदलकर PRAMOD KUMAR कर लिया है। भविष्य में मुझे PRAMOD KUMAR S/O LATE RAMLAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

PRAMOD KUMAR S/O LATE RAMLAL  
नि. नसीरपुर कलां शाहपुर शीतलाखेडा  
हरिद्वार।

### सूचना

मेरे, सभी दस्तावेजों में मेरा नाम—राजमती है। जबकि आधारकार्ड में रजनी व विवाह प्रमाण—पत्र में राजमती उर्फ रजनी है। मैंने अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम—राजमती कर लिया है। भविष्य में मुझे राजमती पत्नी रविन्द्र सिंह के नाम से जाना—पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजमती पत्नी रविन्द्र सिंह  
निवासी—सांकरी पो0ओ0 कमाद, कमांड  
किनथू माधे चक, टिहरी गढ़वाल,  
उत्तराखण्ड—249131

### सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 3773 8545 8953 में त्रुटिवश उसका नाम इविन (Iveen) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम इवान बुडाकोटी (Ivaan Budakoti) है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र सं0 B20141012921 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को इवान बुडाकोटी (Ivaan Budakoti) पुत्र श्री राकेश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राकेश कुमार  
निवासी 88/2 सिंगल मण्डी—II  
कारगी रोड देहरादून उत्तराखण्ड

### सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं. 711945640434 में त्रुटिवश उसका नाम Aisha Parveen दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अक्सा परवीन (Aksa Parveen) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र सं. B-2015:5-90069-000045 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को अक्सा परवीन (Aksa Parveen) पुत्री असलम (Aslam) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

असलम निवासी 299, (पुराना 241)  
शेखपुरी, रुडकी, तहसील रुडकी  
जिला हरिद्वार।

### सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 256540895540 में त्रुटिवश उसका नाम अदीबा दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अरीबा है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र संख्या 2434 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अरीबा पुत्री हसीना बानो पत्नी स्व0 याकूब के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हसीना बानो पत्नी स्व0 याकूब  
निवासी म0नं0 662, माहीग्रान रुड़की,  
परगना व तहसील रुड़की, जिला—हरिद्वार  
उत्तराखण्ड।

### सूचना

मैंने, निजी कारणों से अपना नाम—प्रताप सिंह से बदलकर प्रताप सिंह राणा कर लिया है। भविष्य में मुझे प्रताप सिंह राणा पुत्र श्री जमन सिंह राणा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रताप सिंह (मौजूदा पुराना नाम)  
पुत्र श्री जमन सिंह राणा निवासी 30,  
सोंदावाली, राजेश्वरी नगर, फेस-1, विस्तार,  
नजदीक आई0टी0पार्क, देहरादून,  
उत्तराखण्ड-248001